

भारत-चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन

संदर्भ

भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा खत्म हो गया हो, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी दोस्ती को दूरगामी दृष्टिकोण से मापा जा रहा है। चीनी राष्ट्रपति ने जिस तरह से प्रोटोकॉल तोड़कर भारतीय प्रधानमंत्री से अनौपचारिक बातचीत की, उससे तो यही लगता है कि चीन भारत के साथ अपने संबंधों को पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत आधार प्रदान करना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के महत्त्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन के राष्ट्रपति ने किसी प्रधानमंत्री से अनौपचारिक भेंट की हो। इसका कारण यह है कि इससे पहले प्रधानमंत्री की आधिकारिक मुलाकात चीनी प्रधानमंत्री ली केकियिंग से होती थी, इसके बाद ही वह राष्ट्रपति से मलि पाते थे।

मुख्य बंदि

- भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्त्व के महत्त्वपूर्ण वषियों पर वचिारों के आदान-प्रदान एवं वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परदृश्य के संदर्भ में अपने-अपने देशों के राष्ट्रीय विकास के लिये उनकी प्राथमकिताओं और दृष्टिकोण पर वसितार से बातचीत करने के लिये 27-28 अप्रैल, 2018 को वुहान में प्रथम अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में भाग लिये।
- इस मुलाकात की एक खास वजह यह भी थी कि गत साल भारत और चीन के बीच डोकलाम के मुद्दे पर तनातनी का माहौल रहा। इस गतरिध के बाद दोनों देशों के प्रमुखों की यह पहली मुलाकात थी। आपको बता दें कि यह एक अनौपचारिक मुलाकात थी, अर्थात् इस यात्रा के दौरान न तो किसी समझौते पर हसताक्षर हुए और न ही कोई संयुक्त बयान जारी किये गया।
- किसी समझौते की घोषणा न होने के बावजूद उसकी अहमयित इसलिये बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों देशों ने सीमा पर शांति बनाए रखने के लिये संचार तंत्र को मजबूत करने और आपसी समझ वकिसति करने के लिये अपनी-अपनी सेनाओं को रणनीतिक मार्गदर्शन जारी करने का फैसला किये।

कुछ महत्त्वपूर्ण बंदिओं जनि पर सहमति बनी

- भारत और चीन दो वशाल अर्थव्यवस्थाओं एवं महत्त्वपूर्ण शक्तियों के रूप में रणनीतिक और नरिणय लेने की स्वतंत्रता सहति एक साथ उदय, क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय रूप से महत्त्व रखता है।
- भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण, स्थिर और संतुलित रशिते मौजूदा वैश्विक अनश्चितता के बीच एक सकारात्मक कारक साबति होंगे।
- दोनों देशों के प्रमुखों द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि द्विपक्षीय संबंधों के समुचित प्रबंधन क्षेत्रीय विकास एवं स्थिरता के लिये सहयोगकारी रहेगा और एशिया की सदी के नरिमाण के लिये अनुकूल परस्थितियाँ तैयार करेगा।
- इस संबंध में दोनों राष्ट्रों द्वारा राष्ट्रीय आधुनिकीकरण और अपने लोगों को अधिक समृद्ध बनाने के लिये एक करीबी वकिसात्मक साझेदारी को परस्पर लाभकारी और स्थायी तरीके से सशक्त बनाने का नश्चय भी किये गया।

भारत-चीन संबंधों में प्रगति की समीक्षा

- प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी ने रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से भारत चीन संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। भावी संबंधों के लिये संभव सबसे वृहद मंच के नरिमाण के लिये दोनों प्रमुखों ने पहले से स्थापित प्रणालियों के जरिये मौजूदा संमलिन को और वकिसति करने के लिये अपने परयासों को व्यापक रूप से बढ़ाने पर भी सहमति प्रकट की।
- वे इस बात पर भी सहमत हुए कि एक दूसरे की संवेदनशीलताओं, चितियों और आकांक्षाओं के महत्त्व को दमिग में रखते हुए दोनों देशों के मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग और समग्र संबंधों के संदर्भ में सुलझाने के लिये दोनों पक्षों में पर्याप्त परपिक्वता और बुद्धिमत्ता है।

भारत-चीन सीमा क्षेत्र

- भारत और चीन के बीच सीमा वविद हमेशा से एक पेचीदा मसला रहा है। डोकलाम में टकराव इसी सीमा वविद की उपज था। पछिले साल डोकलाम में भूटान के इलाके में सड़क नरिमाण की चीन की कोशशि उसके वसितारवादी रवैये के साथ-साथ भारत की सुरक्षा के लिये खतरे का सूचक थी। इस खतरे को भाँपकर ही भारत ने डोकलाम में अपनी सेना भेजने का नरिणय लिये था।
- इस बात की महत्ता को समझते हुए दोनों देशों ने संबंध सुधार की जो कोशशि शुरू की उसका ही नतीजा वुहान में अनौपचारिक बैठक के रूप में देखने को मलि। इस बैठक में दोनों नेताओं द्वारा द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक हति में भारत-चीन सीमा क्षेत्र के सभी हसिसों में शांति वियवस्था को बनाए रखने के महत्त्व पर बल दिये गया।
- इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये उन्होंने अपनी सेनाओं को आपसी वशिवास एवं समझ वकिसति करने और सीमा संबंधी मामलों के प्रबंधन में पूरवानुमान लगाने तथा उन्हें प्रभावकारी बनाने के लिये रणनीतिक मार्ग-नरिदेशन भी दिये, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति से बचा जा सके।

- वुहान में दोनों देशों के नेताओं ने भारत-चीन के प्राचीन संबंधों को याद करते हुए उन्हीं आधार पर एक बेहतर कल के नरिमाण की कल्पना भी प्रस्तुत की। जैसा कहिम सभी जानते हैं कि चीन में प्रचलित बौद्ध धर्म का उदय भारत में ही हुआ था, इस आधार पर इन दोनों देशों के बीच एक आध्यात्मिक रश्िता भी है।
- हालाँकि, इसके बावजूद इन दोनों के मध्य रश्िते में वैसी मधुरता नहीं है, जैसी कहिनी चाहयि।

द्वपिक्षीय व्यापार एवं नविश

- दोनों नेता दोनों देशों के बीच मौजूद लाभकारी व्यवस्थाओं का लाभ उठाते हुए द्वपिक्षीय व्यापार एवं नविश को एक संतुलित और स्थायी तरीके से आगे बढ़ाने पर भी सहमत हुए।
- उन्होंने लोगों के बीच आपसी संपर्क और घनषिठ सांस्कृतिक संपर्कों को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर भी चर्चा की और इस दशिा में एक नयी व्यवस्था की स्थापना की संभावना को तलाशने पर भी सहमत हुए।

क्षेत्रीय और वैश्विक हति

- दोनों नेताओं द्वारा इस बात पर बल दिया कि दो महत्त्वपूर्ण देशों के तौर पर भारत और चीन के व्यापक और परस्पर जुड़े हुए क्षेत्रीय और वैश्विक हति हैं। स्पष्ट रूप से ऐसा रणनीतिक संवाद आपसी समझ पर एक सकारात्मक प्रभाव तो डालेगा ही, साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता में भी योगदान देगा।
- दोनों नेताओं द्वारा इस बात पर भी सहमत जताई गई कि भारत और चीन दोनों ने अपने-अपने विकास और आर्थिक प्रगति के जरयि विश्व शांति और समृद्धि में अलग-अलग ढंग से व्यापक योगदान दिया है और दोनों ही देश भविष्य में वैश्विक विकास के लयि एक इंजन की तरह काम करते रहेंगे।
- एक खुली, बहुधरुवीय, बहुलवादी एवं भागीदारी पर आधारित वैश्विक आर्थिक व्यवस्था का नरिमाण जहाँ एक ओर सभी देशों को उनके विकास के लक्ष्यों को हासिल करने योग्य बनाएगा, वहीं दूसरी ओर विश्व के सभी क्षेत्रों से नरिधनता और असमानता के उनमूलन में भी सहयोग करेगा।

वदिशी नीति

- दोनों नेताओं ने वैश्विक समृद्धि और सुरक्षा को प्राप्त करने के लयि वदिशी नीति पर अपने-अपने दृष्टिकोण के बारे में एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा कयि। इस दौरान कुछ प्रमुख वैश्विक चुनौतयों, जैसे- जलवायु परिवर्तन, स्थायी विकास एवं खाद्य सुरक्षा और अन्य चुनौतयों के स्थायी समाधान के लयि एक सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से संयुक्त रूप से योगदान देने पर भी सहमत जताई गई।
- इसके अतिरिक्त बहुपक्षीय वत्तितीय एवं राजनीतिक संस्थाओं के सुधार के महत्त्व पर बल दिया, ताकि इन संस्थाओं को और अधिक प्रतनिधित्वकारी और विकासशील देशों की आवश्यकताओं के प्रत और संवेदनशील बनाया जा सके।
- दोनों देशों के व्यापक विकास संबंधी अनुभवों और राष्ट्रीय क्षमताओं को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि दो महत्त्वपूर्ण देशों और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के तौर पर भारत और चीन को 21वीं सदी में मानव जाति द्वारा सामना की जा रही चुनौतयों से नपिटने के लयि अनोखे और स्थायी समाधान प्रदान करने में बढत लेने के लयि आपस में हाथ मिला लेने चाहयि।

आतंकवाद के मुद्दे पर

- प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी ने आतंकवाद के सम्मलित खतरे और आतंकवाद के सभी प्रकारों/रूपों के प्रत प्रबल प्रतरीध व्यक्त करते हुए इसकी भर्त्सना भी की।

अफगानसितान में एक संयुक्त आर्थिक परयोजना

- जैसा कहिम सभी जानते हैं कि भारत और चीन के बीच अफगानसितान में एक संयुक्त आर्थिक परयोजना पर सहमत बिन गई है। इस परयोजना को चीन-पाकसितान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) का तोड़ माना जा रहा है।
- ज्ञात हो कि हमेशा से भारत इस चीन-पाकसितान आर्थिक गलियारे पर अपना वरिध जताता आया है, इसका सबसे अहम कारण यह है कि यह गलियारा पाकसितान अधिकृत कश्मीर (पीओके) से होकर गुजरेगी।
- चीन के वुहान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अफगानसितान में परयोजना को लेकर संयुक्त आर्थिक भागीदारी पर सहमत बिन गई है। यदयिह परयोजना प्रभाव में आती है तो यह पाकसितान के लयि परेशानी का सबब बन सकती है।

अफगानसितान में चीन सबसे बड़ा नविशक

- आपको बताते चलें कि चीन, अफगानसितान का सबसे बड़ा नविशक राष्ट्र है। एक जानकारी के अनुसार, चीन ने वर्ष 2007 में 3 बलियन डॉलर की एक डील के तहत, अफगानसितान के अयनाक में कॉपर माइन को 30 साल की लीज पर लयि था।
- इस माइन से कॉपर को चीन पहुँचाने में लगभग 6 महीने का समय लगता था, लेकिन दोनों देशों द्वारा वर्ष 2016 में रेलवे लाइन के नरिमाण संबंधी एक समझौता पत्र पर सहमति व्यक्त करने के बाद एक कॉरिडोर तैयार कयि गया। इसका प्रभाव यह हुआ कि अब मात्र दो हफ्तों में कॉपर को अफगानसितान से चीन पहुँचाया जा रहा है।
- अब यद अफगानसितान सीपीईसी में शामिल हो जाता है तो अफगानसितान में सड़क और रेल नेटवर्क तैयार करने का कार्य शुरु हो जाएगा, जिससे वह अपने कारोबार को और अधिक प्रसारित करने के साथ-साथ सेंटरल और वेस्टरन एशिया के कारोबार में भी अपनी जगह बना पाएगा।

पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा का प्रश्न

- डोकलाम और तवांग (अरुणाचल प्रदेश) की स्थितिको ध्यान में रखते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सत्तासीन होने के बाद से पूर्वोत्तर भारत के विकास पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है।
- हमेशा से पूर्वोत्तर भारत न केवल शेष देश से कटा-कटा रहा है, बल्कि अलगाववाद एवं उग्रवाद की समस्या से भी जूझता रहा है। न तो इस क्षेत्र को केंद्रीय योजनाओं से ही कोई विशेष लाभ पहुँचा है और न ही यहाँ की बुनियादी व्यवस्था ही सुदृढ़ है।
- इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार द्वारा इस क्षेत्र के विकास पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है।
- ज़ाहिर सी बात है इसका सरकार को राजनीतिक फायदा भी मिला है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत के पाँच राज्यों में भाजपा या इसके द्वारा समर्थित सरकार है।

युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है

- आज एक विकास और प्रतिसपर्द्धा के दौर में यदि कोई भी देश युद्ध का मार्ग अपनाता है तो वह न केवल दुश्मन राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थितिको नुकसान पहुँचाता है, बल्कि वह अपनी उन्नतिके मार्ग में भी बाधा उत्पन्न करता है।
- आज के युग में सैन्य टकराव का विकल्प बिल्कुल भी प्रभावी नहीं है, इसलिये भारत और चीन को भी सेना के ज़रिये किसी विवाद का समाधान करने की बजाय दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिये।
- न तो भारत इस समय पहले जैसी स्थिति (वर्ष 1962 जैसी) में है और न ही चीन एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरने के बाद ऐसी गलती करेगा।
- वर्तमान संदर्भ में यदि ये दोनों देश किसी भी छोटे या बड़े सैन्य टकराव की स्थिति में आते हैं तो इसका इनके आर्थिक-व्यापारिक संबंधों पर गहरा असर पड़ेगा।
- इससे न केवल भारत की तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, बल्कि इससे विश्व महाशक्ति बिनने के चीन के सपने को भी धक्का पहुँचेगा।

नषिकर्ष

इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाल ही में चीन के शहर वुहान में हुई दोनों देशों के नेताओं की इस अहम मुलाकात में कुछ बहुत महत्वपूर्ण मसलों पर सहमति बनी है, जिसके परिणामस्वरूप सीमा विवाद पर टकराव की आशंका कम हो गई है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अभी भी यह समस्या पूरी तरीके से दूर नहीं हुई है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि वुहान शिखर वार्ता के बाद क्या भारत के प्रतिचीनी नेतृत्व में कोई बदलाव आता है या नहीं? साथ ही अर्थव्यवस्था में तीव्र गतिके साथ-साथ क्या भारत क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करते हुए विकास की गतिको जारी रख पाता है?

प्रश्न: वुहान शिखर वार्ता के संदर्भ में भारत-चीन संबंधों की समीक्षा कीजिये। साथ ही चीन की वसितारवादी नीतिके परपिक्षय में भारत की भूमिका पर भी प्रकाश डालिये।

इस मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिये पढ़ें :

- ⇒ [सीपीईसी, चीन-पाकस्तान और भारत](#)
- ⇒ [भारत-चीन सीमा पर बुनियादी ढाँचे की स्थिति](#)
- ⇒ [भारत और चीन के बीच संवाद के नए आधिकारिक चैनल](#)
- ⇒ [चीन की नीतियों के विरुद्ध क्या हो भारत का रुख?](#)
- ⇒ [प्रस्तावित चतुष्कोणीय गठबंधन के आलोक में भारत-चीन संबंध](#)
- ⇒ [भारत-चीन संबंधों में व्यापार घाटे की चुनौती](#)
- ⇒ [नए भारत का उदय और चीन का बदलता नजरिया](#)
- ⇒ [भारत-चीन संबंधों में सुधार की जरूरत](#)
- ⇒ [द बिग पकिचर: चीन का अड़ियल रवैया; भारत को नई चीन नीतिकी जरूरत?](#)